



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1946 (श10)

(सं० पटना 851) पटना, मंगलवार, 27 अगस्त 2024

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

7 अगस्त 2024

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-13/2022 खण्ड-1290—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 06 (छः) व्यापार मंडल सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार समिति के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान हेतु दिनांक 10.09.2024 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 1132 दिनांक 10.07.2024 एवं पत्र संख्या- 1160 दिनांक 12.07.2024 मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.06.2024 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 01.08.2024 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. उपर्युक्त आलोक में अनुलग्नक-1 में अंकित समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई०1 में सूचना का प्रकाशन	13.08.2024 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	28.08.2024 (बुधवार) एवं 29.08.2024 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	30.08.2024 (शुक्रवार) एवं 31.08.2024 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	03.09.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	10.09.2024 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	10.09.2024 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	12.09.2024 (गुरुवार)

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 13.08.2024 (मंगलवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18), को अपलोड करना एवं तदोपरांत प्राधिकार के ई-मेल <a href="mailto:bseapatna@gmail.com">bseapatna@gmail.com</a> पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

7. प्रपत्र-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

8. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-5 में विधिमाम्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका में वर्णित प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([bseapatna@gmail.com](mailto:bseapatna@gmail.com)) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी अपलोड करायेंगे।

9. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

10. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 12.09.2024 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।

आदेश से,  
पुरुषोत्तम पासवान,  
सचिव।

अनुलग्नक-1

निर्वाचन हेतु व्यापार मंडल सहयोग समितियों की सूची			
क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
1	मुजफ्फरपुर	पारू	पारू व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड
2	बांका	कटोरिया	कटोरिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड
3	खगड़िया	परबत्ता	परबत्ता व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड
4	खगड़िया	बेलदौर	बेलदौर व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड
5	कैमूर	नुआँव	नुआँव व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड
6	सारण	दरियापुर	दरियापुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड

व्यापार मंडल निर्वाचन**प्रपत्र-1****सूचना का प्रपत्र  
(नये व्यापार मंडल के लिए)**

जिला ....., प्रखंड.....के व्यापार मंडल ....., निबंधन संख्या....., पता .....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं..... (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

**आम सूचना**

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	
<b>प्रथम वर्ग से</b> अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य- <ul style="list-style-type: none"> <li>अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि</li> <li>पिछड़ा वर्ग कोटि</li> <li>अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि</li> <li>सामान्य कोटि</li> </ul>	01 (अनारक्षित) 10 02 पद, जिसमें 01 पद महिला के लिए आरक्षित 01 पद 02 पद, जिसमें 01 पद महिला के लिए आरक्षित 05 पद (अनारक्षित), जिसमें 03 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 02 पद महिला के लिए आरक्षित
<b>द्वितीय वर्ग से</b> प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य <ul style="list-style-type: none"> <li>अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि</li> <li>सामान्य कोटि</li> </ul>	03 01 पद 02 पद (अनारक्षित), जिसमें 01 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित

- (ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को.....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ..... (नामांकन पत्र दाखिल की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक..... तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी।
- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक ..... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30..... (स्थान का नाम) बजे अपराह्न तक होगा।
- (vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....(स्थान का नाम) पर की जायेगी।

स्थान-  
तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

व्यापार मंडल निर्वाचन

**प्रपत्र-1**  
**सूचना का प्रपत्र**  
**(पुराने व्यापार मंडल के लिए)**

जिला ....., प्रखंड.....के व्यापार मंडल ....., निबंधन संख्या....., पता .....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं..... (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

**आम सूचना**

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
अध्यक्ष - प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य- <u>प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) से</u>	01 (अनारक्षित)  06 01 पद 01 पद 01 पद 03 पद (अनारक्षित), जिसमें 02 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि • अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि • पिछड़ा वर्ग कोटि • सामान्य कोटि	
<u>द्वितीय वर्ग (व्यक्तिगत किसान) से</u>	06 पद
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि • पिछड़ा वर्ग कोटि • अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि • सामान्य कोटि	01 पद 01 पद 01 पद 03 पद (अनारक्षित), जिसमें 02 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को.....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ..... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक..... तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक ..... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30..... (स्थान का नाम) बजे अपराह्न तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....(स्थान का नाम) पर की जायेगी।

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर ।

\_\_\_\_\_

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 851-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>